

AGREEMENT NO:-26/M.MGSY(SC)SBD/2020-21

Schedule XLV-Form No. 134

NAME OF WORK:- LO30 TO KUMHAR TOLI

R.W.D (W.D) KISHANGANJ-2 **DIVISION**

(S.C)

DIGHA BANK **SUB-DIVISION**

M.B.No-1106

MEASUREMENT BOOK

NAME OF AGENCY:- MOHAMMED HAIDER REYAZI

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ है। जो श्री. रा. सु. प्र. सा. 14-सठ अमी०
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल, दि. छा. त. वे. क.
के नाम से निर्गत किया जाता है।

26/3/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल-2

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of Officer

Date of first entry

Date of last entry

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
6030 to Kumbhar Teli					
Agency — Mr. Haidar Ruyazi					
Agreement No. — 26/MMGSY(10)/SBD					
					/ 2020-21
Rate of Agreement = 0.13 % below to SIR					
P.O. of start 2 11-06-2020					
P.O. Completion 2 10-06-2021					
Record Measurement					
(1) P/EW in excavation — do —					
all c. job. a.p.s.					
2x2 HPE	2x2	6.350	1.400	1.50	53.34
					26.674
	1x2	4.700	1.500	0.50	87.92
					61.26 m ³
(2) P/PCC MW leveling course					
do — all c. job.					
	2x2	6.350	1.400	0.150	5.33 m ³
(3) P/M20 PCC in head wall					
do — all c. job.					
below pipe	2x2	6.150	$\frac{1.150+0.927}{2}$	1.35	36.15 m ³
above pipe	2x2	6.150	$\frac{0.927+0.600}{2}$	$\frac{41.32}{2}$	18.78 m ³
					54.93 m ³
deduct for pipe	2x2	32			9.64 m ³
					50.29 m ³
					77.47 m ³
deduct for pipe					
	2x2	32			9.64 m ³
					72.83 m ³

Continuation

ABSTRACT OF COST.

10

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Const. of B.M. & Ref Pillar					
— do — all 2 jobs.					
Vide T.M.B. Page 4 item (1)					
= 0.636 km @ 3391.76/-					2157.00
(2) Const. of working B.M. - 1 job					
Vide T.M.B. Page 4 item (2)					
= 0.636 km @ 1579.28/-					1004.00
3). Clearing and grubbing of good land - 1 job					
Vide T.M.B. Page 4 item 3					
= 0.190 Ha @ 5109.28/-					971.00
4) Const. of Embankment					
With — 1000 m lead - 1 job					
Vide T.M.B. Page 4 item 4					
= 594.00 m ³ @ 174.63/m ³					103730.00
5). Const. of Embankment					
With 100 m lead — 1 job					
Vide T.M.B. Page 4 item (5)					
= 396.00 m ³ @ 151.00/m ³					59796.00
6) Const. of sub grade and do					
all 2 jobs. a job					
Vide T.M.B. Page 4 item (6)					
972.00 m ³ @ 187.61/m ³					182357.00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			311.40		358755-
7) P/GSB G.I. do - all r.i.s					
Vide T.M.B. Page 5 item (7)					
= 400.950 m ³ @ 2809.87/m ³ = 1126617-					
(8) P/W.B.M. G.I. do - C.I.S					
Vide T.M.B. Page 9 item 7					
= 139.22 m ³ @ 4135.70/m ³ = 575772-					
(9) Excavation of structure -					
Vide T.M.B. Page 5 item (8) = 11.76 m ³					
4 " (8) " (1) = 61.26 m ³					
			73.02 m ³		2152120
					346600
10) P/and laying r.c.c. NP3					
300 mm dia Pipe - C.I.S					
Vide T.M.B. Page 5 item (9)					
= 30.0 M @ 1332.52/M = 39976-					
11) P/laying 1st class bedding					
With local sand - C.I.S					
Vide T.M.B. Page 5 item 10					
= 2.10 m ³ @ 326.98/m ³ = 68720.					
12) P/PCC M10 in levelling course					
do - all r.i.s.					
Vide T.M.B. Page 8 item (2)					
= 5.33 m ³ @ 5988.21/m ³ = 31917-					

Continuation

1

Rs. 21,55,245=00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			13/1.46.		2155245 =
13) P/pee mo in head wall C.S.B					
Vide T.M.B. Page 8 Item 3					
= 72.83 m^3 L.H. to 69.36 m^3					
		@	6328.58/ m^3		4389.50 =
14) P/and buying kee pipe					
NP3 second to all C.S.B					
Vide T.M.B. Page 8 Item 4 =					
= 15.0M @ 3937.85/m =					59069 =
15) P/and laying bedding with					
granular material - do - 2.35					
Vide T.M.B. Page 9 Item (5)					
= 6.94 m^3 @ 1991.11/ m^3					13818 =
16) P/and buying MMSY automatic					
log-board - do - all 2.5 lb.					
Vide T.M.B. Page 5 Item (11) 2					
2 hrs @ 10742.89/hr.					21486 =
17) P/buying MMSY log board					
do - all 2.5 lb.					
Vide T.M.B. Page (5) Item (12)					
= 2 hrs @ 10742.89/hr.					21486 =
					1
					@ 2710,054 =

Continuation

Continuation